

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
भवन निर्माण विभाग भवन प्रमण्डल, कोडरमा

पत्रांक.....40...../

दिनांक.....16.1.2021...../

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल, कोडरमा।

सेवा में,

सचिव,  
इकरा पब्लिक स्कूल  
आर0आई0टी0 रोड चेचाई  
झुमरी तिलैया, कोडरमा।


विषय:- इकरा पब्लिक स्कूल आर0आई0टी0 रोड चेचाई, झुमरी तिलैया, कोडरमा को विद्यालय भवन पूर्णता प्रमाण पत्र के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक शून्य दिनांक 12.1.2021

महाशय,


उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि इकरा पब्लिक स्कूल आर0आई0टी0 रोड चेचाई, झुमरी तिलैया, कोडरमा भवन का निर्मित संरचना भौतिक रूप से राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 को संतुष्ट करता हुआ प्रतीत होता है। यह भवन पठन - पाठन के अनुकूल है।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल कोडरमा

EXECUTIVE ENGINEER  
Building Division  
KODERMA



**Manager**  
Iqra Public School  
RIT Road, Chechai  
Koderma



**Principal**  
Iqra Public School  
RIT Road, Chechai  
Koderma



TC-8840

**TEST REPORT**

Issued to : The Principal  
 Iqra Public School,  
 At – RIT Road Chechai,  
 P.O. – Karma,  
 District – Koderma (Jharkhand)

Sample Code:-200728GWF0009  
 Report ID :- TC88402100000001F194  
 Date of Issue :- 20/07/2021

**SAMPLE PARTICULARS**

Sample Name/Description: - G.W.  
 Sample Quantity : - 01 L  
 Sample pkg. Condition : - GOOD  
 Number of samples : 1 No  
 Sample Receive date: 20/07/2021

Customer Date of sampling :- 20/07/2021  
 Customer Reference No. :- HB-DLWTL-393  
 Sample collected by:: CUSTOMER  
 Customer Sampling Location: FINAL OUTLET  
 Test started on : - 20/07/2021  
 Test completed on :- 20/07/2021

**TEST RESULT**

Sl. No.	Tested Parameter	Unit	Results	Method	Specification as per IS 10500 : 2012 (Second Revision)	
					Acceptable Limit	Permissible Limit (Absence of Alternate source)
1	pH	-	7.31	APHA 23 <sup>rd</sup> Ed.2017-4500-H <sup>+</sup> B, (Electrometric method)		
2	Turbidity	NTU	0.6	APHA 23 <sup>rd</sup> Ed.2017-2130 B, (Nephelometric method)	6.5 – 8.5	No relaxation
3	Total Alkalinity as CaCO <sub>3</sub>	mg/l	210	APHA 23 <sup>rd</sup> Ed.2017-2320 B, (Titration method)	1	5
4	Calcium as (Ca)	mg/l	71.34	APHA 23 <sup>rd</sup> Ed.2017-3500 Ca B, (EDTA Titration method)	200	600
5	Magnesium as Mg	mg/l	15.06	APHA 23 <sup>rd</sup> Ed.2017-3500-Mg B, (Calculation method)	75	200
6	Total Hardness as CaCO <sub>3</sub>	mg/l	240	APHA 23 <sup>rd</sup> Ed.2017-2340 C, (EDTA Titration method)	30	100
7	Fluoride as (F)	mg/l	0.89	APHA 23 <sup>rd</sup> Ed.2017-4500 F <sup>-</sup> C, (Ion selective electrode method)	200	600
					1.0	1.5

Remarks:-Submitted Sample of Water according to above parameters is fit for Consumption :- Yes  / No ( )

**Specific contractual notes :-**

- ◆ The results listed refer only to the tested sample and applicable parameter.
- ◆ This report shall not be reproduced except in full without approval of the laboratory.
- ◆ This report results apply to the sample as received.
- ◆ This report results relate only to the items tested.
- ◆ This report, in full or in part, shall not be used for advertising or as evidence in any court of law.
- ◆ Tested Sample shall be retained up to seven days from the date of issue of the test report
- ◆ The liability of the laboratory is limited to the invoiced amount.
- ◆ All disputes are subjected to the Ranchi Jurisdiction.
- ◆ NOTE:- BDL=Below Detection Limit

**Principal**  
 Iqra Public School  
 RIT Road, Chechai  
 Koderma

**Manager**  
 Iqra Public School  
 RIT Road, Chechai  
 Koderma

*Signature*  
 20/7/2021

Authorised Signatory  
 Name: Abhilek Kr.  
 (Quality Manager)

**Quality Manager**

.....End of the report.....

District Level Water Testing Laboratory  
 D.W.&S. Division, Nazaribagh

Doc No.: HB-DLWTL-QP-4-F-19

Issue No / Date : 01/

Revision No / Date : 01 / 16.04.2021

Page No : 01 of 01